

(2)

A
(20623)

B.B.A.-IV Sem.

Printed Pages : 8

Roll No.

18093

B.B.A. Examination, June-2023

FINANCIAL MANAGEMENT

(BBA-402)

(New Course)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

Note : Attempt all the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिये।

Section-A

खण्ड-अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अतिलघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt all **five** questions. Each question carries
3 marks. 5×3=15

नोट : सभी पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।

18093

[P.T.O.]

1. What do you understand by working capital ?

कार्यशील पूँजी से आप क्या समझते हैं ?

2. Define the term Financial Leverage.

वित्तीय उत्तोलन शब्द को परिभाषित कीजिये।

3. Define under capitalization.

अल्प पूँजीकरण को परिभाषित कीजिये।

4. Define any two techniques of Capital Budgeting.

पूँजीगत बजटन की कोई दो तकनीकें बताइये।

5. Define the term Dividend.

लाभांश शब्द को परिभाषित कीजिये।

Section-B

खण्ड-ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries

7.5 marks.

2×7.5=15

18093

(3)

नोट : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है।

6. What is the Role of Financial Manager in Present Scenario ?

वर्तमान समय में वित्तीय प्रबन्धक की क्या भूमिका है ?

7. Define in Detail the various decisions taken by Financial Manager.

वित्तीय प्रबन्धक द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न निर्णयों को विस्तार से समझाइये।

8. Earning per share of a company is Rs.10 and market capitalization rate K_e is 10%. The company has before it an option of adopting a payment Ratio of 50%, 75% and 100% of Dividend. Using Walter's formula of dividend payout, compute the market value of company's share, if the Rate of Return on internal Investment is 15%.

18093

[P.T.O.]

(4)

एक कम्पनी की प्रति अंश आय 10 रुपये तथा बाजार पूंजीकरण दर K_e 10% है। कम्पनी के समक्ष लाभांश वितरण के निम्न विकल्प उपलब्ध हैं 50%, 75% तथा 100%; वाल्टर का सूत्र उपयोग करके लाभांश वितरण की प्रत्येक दर पर कम्पनी के अंश का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिये यदि आंतरिक लाभ दर 15% हो तो।

Section-C

खण्ड-ग

(Detailed Answer Type Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **three** questions out of the following five questions. Each question carries 15 marks. Answer is required in detail. $3 \times 15 = 45$

नोट : निम्नलिखित पांच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

18093

(5)

9. Explain the Walter's Model with the help of an example. What are its shortcomings if any?

वाल्टर मॉडल को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसकी कमियां यदि कोई हैं उन्हें भी बताइये।

10. What is cost of Preference share capital? How do you calculate cost of Redeemable and irredeemable Preference Shares?

पूर्वाधिकार अंश पूँजी की लागत क्या है? शोधनीय व अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों की लागत आप कैसे ज्ञात करेंगे?

11. What do you understand by working capital? What are the points that are responsible for effecting the working capital need of an Organisation?

कार्यशील पूँजी से आप क्या समझते हैं? किसी संस्था की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी मुख्य बिन्दुओं को बताइये।

(6)

12. From the given information you are required to calculate the weighted average cost of capital before tax and after tax assuming tax rate of 50%.

Particulars	Amount in Rupees
Equity share capital expected dividend 22%	10,00,000
11% Preference Shares	5,00,000
9% Debentures	15,00,000
8% Loan	10,00,000
	40,00,000

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर भारित औसत पूँजी की लागत की गणना कीजिये। कर की दर 50% मानते हुए कर के पूर्व तथा कर के पश्चात गणना कर पूँजी की लागत बताइये।

विवरण	राशि रुपयों में
समता अंश पूँजी लाभांश अनुमानित दर 22%	10,00,000
11% पूर्वाधिकार अंश	5,00,000
9% ऋण पत्र	15,00,000
8% ऋण	10,00,000
	40,00,000

18093

3093

(7)

13. Sintex & Company is planning to replace its existing photo copy machine. The three alternatives are available to it.

	Machine A	Machine B	Machine C
Cost of machine	350000	450000	400000
Life in Years	5	6	8
ACF	100000 PA	120000 PA	100000 PA for first 3 years 90000 for next 5 years
Salvage value	10% of the cost	10% of the cost	10% of the cost

From the above information suggest Syntex and Company which machine it should buy, Considering the following :

- (i) PBP
- (ii) PPBP
- (iii) ROI
- (iv) ARR

(8)

सिंटेक्स एंड कंपनी अपनी मौजूदा फोटो कॉपी मशीन को बदलने की योजना बना रही है। इसके लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं।

	मशीन A	मशीन B	मशीन C
मशीन की लागत	350000	450000	400000
जीवन (वर्षों में)	5	6	8
वार्षिक नकदी प्रवाह	100000 प्रति वर्ष	120000 प्रति वर्ष	100000 प्रथम 3 वर्ष 90000 आगामी 5 वर्ष
स्कैप मूल्य	लागत का 10%	लागत का 10%	लागत का 10%

उपरोक्त जानकारी से सिंटेक्स एंड कंपनी को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सुझाव दें कि उसे कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए।

- (i) पुनर्भुगतान अधिक पद्धति (PBP)
- (ii) अदायगी अवधि के पश्चात लाभप्रदता (PPBP)
- (iii) विनियोग पर प्रत्याय दर (ROI)
- (iv) औसत विनियोग पर प्रत्याय दर (ARR)